

## बद्दी के नकली अंग्रेजी दवाएं बनाने का भंडाफोड़

Publish Date: Wed, 04 Mar 2020 06:17 AM (IST)



स्वास्थ्य

विभाग ने बद्दी में बड़े पैमाने पर नकली दवाईयां बनाने के उद्योग का भंडा फोड़ किया है। राज्य ड्रग कंट्रोलर कार्यालय ने सूचना मिलते ही तुरंत कंपनी को सील कर दिया है और उसकी स

संवाद सहयोगी, बद्दी : हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला स्थित बद्दी में के एक उद्योग में नकली अंग्रेजी दवाएं बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने उद्योग को सील कर दवाएं कब्जे में ले ली हैं।

यह कंपनी फूड आइटम बनाने के लिए अधिकृत थी, लेकिन पिछले कुछ माह से अंग्रेजी दवा बना रही थी। फूड लाइसेंस लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी दो भाई इस काम को अंजाम दे रहे थे।

डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर व टीम ने पुलिस को साथ लेकर उद्योग में मंगलवार सुबह छापेमारी की। गलेन मार्स हेल्थकेयर फैक्ट्री, जिसके पास सिर्फ फूड (खाद्य पदार्थ) का लाइसेंस था, ने रातों-रात अमीर बनने के चक्कर में यहां बिना अनुमति के अंग्रेजी दवाइयां का उत्पादन शुरू कर दिया था। इसके मालिक अनुराग शुक्ला व उसका भाई अविन्द्र शुक्ला निवासी चंद्रनगर, नवस्ता थाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश मिलकर दूसरी कंपनियों के नाम से नकली अंग्रेजी दवा बनाकर बाजार में बेचते थे। ये दवा रात को 10 बजे से सुबह छह बजे तक युद्धस्तर पर तैयार की जाती थी। इसके बाद चोरी छिपे बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता था। दवा के पैकेट पर जिन दवा कंपनियों का नाम व उत्पादन स्थान दर्शाया जा रहा था, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उनके पास साईपर फार्मा बद्दी, निरमाया फार्मा बद्दी व उत्तरांचल की कंपनी के नाम से बनी नकली दवाइयां मिली हैं। साथ ही भारी मात्रा में पैकिंग मैटीरियल भी बरामद हुआ है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने बताया कि उद्योग से मिली दवाइयों को लैब जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच टीम में सहायक दवा नियंत्रक कमलेश नायक, दवा निरीक्षक अनूप शर्मा, अभिलाष, नरेंद्र ठाकुर, कुशल, अभिषेक सहित कई कर्मचारी व अधिकारी शामिल थे। आरोप है कि दोनों भाई पिछले कई माह से चोरी छिपे दवा निर्माण करके हर महीने लाखों की चांदी कूट रहे थे। यह कंपनी चूंकि बद्दी के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में प्रथम तल पर है, इसलिए इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। बद्दी पुलिस ने डिप्टी ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

Source: <https://www.jagran.com/himachal-pradesh/solan-froud-medicine-found-at-baddi-20083635.html>